

कांगडा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी-29, जनकपुरी कम्यूनिटी सैन्टर, नई दिल्ली-110058

वार्षिक आम साधारण सभा सूचना पत्र

प्रिय सदस्य,

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बैंक की वार्षिक आम साधारण सभा रविवार 29 अक्टूबर, 2006 को ठीक 10.00 बजे डॉ. अम्बेडकर भवन, आराम बाग, नई दिल्ली-110055 के प्रांगण में होगी। आपसे अनुरोध है कि समय पर पहुंचकर सभा की कारवाई को सफल बनाएं। यदि 29.10.2006 को सभा आरम्भ होने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे तक (11.00 बजे तक) कोरम पूरा नहीं हुआ तो सभा की कारवाई 1/2 घंटे के लिए स्थगित की जाएगी तथा उसी दिन उसी स्थान पर ठीक 11.30 बजे दोबारा आरम्भ होगी जिसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्यक्रम

1. पिछली सभा के उपरान्त जिन सदस्यों का निधन हो गया उन्हें श्रद्धांजली देना।
2. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा को सम्बोधित करना।
3. वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 2005-2006 के आडिटड लेखे-जोखे के ब्योरों पर विचार तथा पुष्टि (ब्योरे पृष्ठ 5-13 पर)।
4. वर्ष 2005-2006 के लाभ का वितरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14 पर)।
5. निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार (पृष्ठ 14 पर)
6. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विचार विमर्श।
7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कारवाई का समापन तथा भोजन।

नोट

1. सभा में प्रवेश केवल सदस्यों को ही मिलेगा इसलिये वे अपना फोटो पास अवश्य लायें।
2. यदि विषय संख्या 6 के अन्तर्गत कोई सदस्य प्रस्ताव या सुझाव देना चाहे तो उसकी एक प्रति हिन्दी अथवा अंग्रेजी में 20.10.2006 तक बैंक की किसी भी शाखा में पब्लिक टाइम में पहुँचा दे। इसके बाद कोई प्रस्ताव/सुझाव स्वीकार नहीं किया जायेगा। पेश करने की अनुमति देना अथवा न देना सभा के अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करेगा।
3. प्रत्येक सदस्य को उपस्थिति लगाते समय भोजन और चाय के लिए दो कूपन दिये जायेंगे । भोजन तथा चाय इन्हीं कूपनों पर उपलब्ध होगा।

दिनांक : 09.10.2006

बी. आर. शर्मा

प्र. निदेशक

वार्षिक रिपोर्ट

आपका बैंक प्रतिवर्ष प्रगति करता रहा है परन्तु वर्ष 2005-2006 बैंक के इतिहास में याद रखने योग्य वर्ष होगा। इस वर्ष बैंक का लाभ 89% बढ़ा तथा शुद्ध एन. पी. ए. 5.14% से घटकर -0.094% हो गया। इस वर्ष बैंक के नाम एक और कीर्तिमान भी जुड़ा जब 21.11.2005 को दिल्ली सरकार ने आपके बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक (Best Bank) का एवार्ड दिया।

ये उपलब्धियां बैंक सदस्यों के सहयोग एवम् समर्थन, निदेशकमण्डल के अच्छे मार्ग दर्शन तथा उत्कृष्ट नीति निर्धारण तथा बैंक कर्मचारियों के कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हुई हैं। नीचे दिया गया तुलनात्मक ब्योरा बैंक की प्रगति को दर्शाता है।

	2004-05	2005-06
सदस्य संख्या	29,357	31,071
ग्राहक संख्या	73,905	78,205
शेयर धन	6.81 करोड़ रू.	8.23 करोड़ रू.
रिजर्व फण्ड	5.82 //	7.21 //
जमा राशियां	151.94 //	166.22 //
ऋण	72.52 //	89.29 //
कार्यशील पूंजी	183.86 //	203.94 //
शुद्ध लाभ	2.18 //	4.12 //
शुद्ध एन. पी. ए.	*5.14 %	0.094 %
करार	*18.11 %	19.64 %

* NPA का कम होना तथा CRAR का अधिक होना बैंक की प्रगति का प्रतीक होता है।

इस वर्ष जहाँ एक ओर बैंक ने प्रगति की वहीं दूसरी ओर रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिये गये जिनसे बैंक सदस्यों को असुविधा हुई तथा देश के सभी सहकारी बैंकों को निराशा। सहकारी बैंक अपने DTL के 33.33% तक जमानती ऋण (Surety Loans) दे सकते थे परन्तु दिसम्बर 2005 को यह सीमा 33.33% से घटाकर वर्ष 2005-2006 के लिये 20% तथा 2006-2007 से 15% कर दी गई। दिसम्बर 2005 में जब यह सीमा कम की गई उससे पहिले बैंक ने लगभग 33 करोड़ रू. के ऋण दिये थे जबकि बैंक की ऐसे ऋण देने की सीमा लगभग 52 करोड़ रू. थी। 01.09.2005 से बैंक ने इस प्रकार के ऋण की सीमा 50000/- रू. से बढ़ाकर 1 लाख रू. कर दी थी। 31.03.2006 को ऐसे ऋणों की सीमा 35 करोड़ तक पहुँच गई थी। जब RBI से बार बार अनुरोध करने पर भी सीमा को नहीं बढ़ाया गया तब निदेशक मण्डल को विवश होकर इस सीमा को 1 लाख रू. से घटा कर 60,000 रू. करना पड़ा तथा नये बने सदस्यों पर भी इस ऋण के लिये अंकुश लगाना पड़ा। जैसे ही रिजर्व बैंक इस सीमा में परिवर्तन करेगा बैंक उसी अनुपात से अंकुश कम कर देगा।

दूसरा निराशाजनक निर्णय वर्ष 2005-06 के बजट में लिया गया जब सहकारी बैंकों के लाभ पर 30% का टैक्स लगाया गया। उपरोक्त दोनों निर्णयों पर दोबारा विचार करवाने के लिये सभी स्तरों पर भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बैंक ने अक्टूबर 2006- मार्च 2007 अवधि का DICGC का प्रीमियम सितम्बर 2006 में जमा करवा दिया है जिसके द्वारा DEPOSITORS की 1 लाख रू. तक की जमा राशि सुरक्षित रहती है। इस वर्ष रिजर्व बैंक के निदेश के अनुरूप किसी भी निदेशक मण्डल सदस्य को ऋण नहीं दिया गया।

निदेशक मण्डल सभी सदस्यों का आभारी है कि उनके सहयोग एवम् समर्थन से बैंक प्रगति कर रहा है निदेशक मण्डल बैंक कर्मचारियों का आभारी है कि वे बैंक को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं।

निदेशक मण्डल रजिस्ट्रार कार्यालय तथा रिजर्व बैंक का उनके मार्गदर्शन के लिये आभारी है

निदेशक मण्डल सब DEPOSITORS का आभारी है कि उन्होंने हमारे बैंक के प्रति निरन्तर विश्वास बनाए रक्खा है। हम उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि बैंक सदैव ध्यान रखता है कि उनका पैसा सुरक्षित रहे तथा उन्हें जमा राशि पर उचित ब्याज मिले।

अन्त में निदेशक मण्डल आप सभी उपस्थित सदस्यों का आभारी है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बैठक में आये तथा इसे सफल बनाया।

धन्यवाद

निदेशक मण्डल की ओर से

बी. आर. शर्मा

प्र. निदेशक

H. K. DUA & CO.
Chartered Accountants

AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

We have audited the attached Balance Sheet of THE KANGRA COOPERATIVE BANK LTD. as at 31st March, 2006 and also the Profit & Loss Account for the year ended on that date annexed thereto, in which are incorporated the returns of its branches. These financial statements are the responsibilities of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant presentation. we believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

And we report that :

- 1 We have obtained all the informations and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- 2 In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Bank, so far as appears from our examination of those books.
- 3 The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and the returns received from the branches.
- 4 Subject to our comments in Part 'C' of the annexure to this report, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with notes to account and Schedules thereto give the information required by law, in the manner so required and give a true and fair view.
 - a) In the case of Balance Sheet of the State of affairs of the Bank as at 31st March 2006, and
 - b) In the case of Profit & Loss Account, the Income of the Bank for the year ended on that date.

For **H. K. Dua & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(H. K. Dua)
Partner

THE KANGRA COOPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110 058

BALANCE SHEET AS ON 31.3.2006

CAPITAL & LIABILITIES YEAR	Current YEAR	
	31.3.2006 Amount (Rs.)	Previous 31.3.2005 Amount (Rs.)
1. SHARE MONEY (INDIVIDUAL)	8,23,05,233.00	6,80,53,677.00
2 A RESERVES & OTHER FUNDS		
I) Statutory Reserve	3,83,07,742.00	2,80,02,271.00
II) Coop. Education Fund	10,000.00	10,000.00
III) Welfare Fund	8,96,677.21	8,01,316.00
IV) Building Fund	1,24,45,036.00	1,12,87,236.00
V) Staff Benevolent Fund	1,26,540.00	1,62,420.00
VI) Prov. & Doubtful Debt	10,50,23,941.00	9,70,23,941.00
VII) Spl. Bad & Doubtful Debt	1,16,06,392.42	78,76,400.00
VIII) Provision on Investments	-	30,00,000.00
IX) Contingent Prov. Against Standard assets	31,09,076.00	14,71,212.00
X) Investment Fluctuation Reserve	56,01,240.00	56,01,240.00
B PROVISION & LIABILITY		
Gratuity Fund	74,84,538.00	18,46,11,182.63
64,48,373.00		
3 PRINCIPAL/SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP FUND ACCOUNT	NIL	NIL
4 DEPOSITS & OTHER ACCOUNTS		
A) FIXED DEPOSITS		
I) Individual	71,19,66,776.73	69,85,63,219.64
II) Coop. Societies & Others		
B) SAVING DEPOSITS		
I) Individual	59,81,00,248.92	50,84,19,060.80
II) Coop. Societies & Others	53,69,558.25	14,21,648.31

	III) Saving Deposit (Inoperative)	15,92,355.92		3,81,055.65
C)	RECURRING DEPOSITS	2,29,50,943.00		2,24,83,376.00
D)	COMPULSORY DEPOSITS	13,39,03,925.82		12,64,85,262.69
E)	CURRENT DEPOSITS	18,83,41,507.29	1,66,22,25,315.93	16,16,17,986.27
5	BORROWINGS		—	—
6	BILLS FOR COLLECTION		4,14,02,547.69	2,95,39,811.62
	BEING BILLS RECEIVABLE (AS PER CONTRA)			
7	BRANCH ADJUSTMENTS		36,219.00	12,107.00
8	OVERDUE INTEREST RESERVE (As Per Contra)		4,03,54,887.50	3,87,50,309.80
9	INTEREST PAYABLE	1,94,82,411.30	1,89,02,226.30	
10.	OTHER LIABILITIES			
	I) Banker Cheque Payable	1,46,88,217.81		1,40,49,905.97
	II) Optional Deposit	1,04,02,234.02		85,58,966.32
	III) Member welfare Scheme	—		—
	IV) Unclaimed Dividend	1,03,88,054.89		75,47,724.04
	V) Suspense A/C	-		-
	VI) P/F Payable	2,86,740.00		2,49,036.00
	VII) Audit Fees Payable	93,704.00		1,04,439.00
	VIII) Margin Money	1,25,000.00		—
	IX) Security Deposits	2,42,150.00		2,57,900.00
	X) TDS Payable	1,08,819.00		85,381.00
	XI) Elect. & Water Ch. P'ble	86,160.00		79,839.00
	XII) Telephone Charges P'ble	89,815.00		83,505.00
	XIII) Professional Ch. P'ble	94,456.00		81,463.00
	XIV) Sundry Deposits	7,65,418.78		7,79,833.78
	XV) Bonus Payable	17,40,248.00		14,31,072.00
	XVI) Other Liabilities	3,46,897.00		1,29,566.33
	XVII) Earnest Money Deposits	—		15,900.00
	XVIII) Rent Payable	—		12,000.00
	XIX) Service Tax Payable	2,26,450.00	3,96,84,364.50	
11	INTT. ACCRUED AND DUE BUT NOT RECEIVED (INVESTMENTS)		—	55,79,828.00
12.	UNREALISED INTEREST (Standard Assets)			51,36,992.00
		37,83,685.00		
13	PROFIT & LOSS ACCOUNT			
	Previous Year		30,00,000.0	20,00,000.00
	Current Year		3,09,06,411.70	1,53,21,792.21
	TOTAL		210,91,45,565.25	189,64,65,986.73
	CONTINGENT LIABILITIES			
I)	Outstanding Liabilities for Guarantee Issued		71,84,537.00	32,62,337.00

II)

Accounting Policies & Notes on Accounts

THE KANGRA COOPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110 058

BALANCE SHEET AS ON 31.3.2006

ASSETS & PROPERTIES YEAR	Current YEAR 31.3.2006 Amount (Rs.)	Previous 31.3.2005 Amount (Rs.)
1 CASH IN HAND	5,37,67,947.00	3,65,03,551.00
Balance with RBI C/A	2,76,59,446.55	3,21,11,963.43
2 BALANCE WITH OTHER BANKS		
A) Current Deposits	42,35,393.83	26,55,722.84
B) Saving Deposits	1,31,346.71	1,04,833.71
C) Fixed Deposits	27,21,23,832.00	25,54,21,332.00
3 MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	2,00,00,000.00	2,50,00,000.00
4 INVESTMENTS		
A) Central & State Govt. Sec.	56,97,11,000.00	45,87,05,000.00
B) Other Trustee Securities	8,50,00,000.00	10,50,00,000.00
C) Share in Coop. Institution	4,950.00	4,950.00
D) Other Investments	4,75,00,000.00	12,95,00,000.00
E) Premium Prepaid on G.Sec	68,30,015.00	66,22,106.00
5 INVESTMENTS OUT OF THE PRINCIPAL/ SUBSIDIARY STATE PARTNERSHIP FUND	NIL	
6 LOANS & ADVANCES		
I) Short Term Loans		
A) Overdraft (Agst FDR, Prop. & Stock)	16,95,25,057.60	14,19,18,708.96
B) Bills Purchased	12,92,500.00	13,93,500.00
II) Medium Term Loans		
A) Surety Loans	36,06,43,987.91	31,10,58,283.72
B) Loan Against Deposits	3,92,09,842.16	3,16,46,706.65
C) Secured Loans	32,21,86,845.30	89,28,58,232.97
	89,28,58,232.97	23,92,17,553.00
7 INTEREST RECEIVABLE		
A) Interest Receivable on Investment	1,57,96,492.00	2,42,32,856.00
B) Interest Receivable on Loan Against Deposits	36,97,296.00	29,35,708.00
C) Interest Receivable on Loan Standard Adv. (As Per Contra)	1,20,75,482.50	1,04,06,957.00
D) Interest Receivable on NPA (As Per Contra)	2,82,79,405.00	5,98,48,675.50
	5,98,48,675.50	2,83,43,352.80
8 BILLS RECEIVABLE BEING BILLS FOR COLLECTION (AS PER CONTRA) PAYABLE IN INDIA	4,14,02,547.69	2,95,39,811.62
9 BRANCH ADJUSTMENTS		

10.	PREMISES	41,73,961.00		
	Less : Depreciation	4,12,008.00	37,61,953.00	40,66,201.00
11	FURNITURE & FIXTURES	58,96,255.00		
	Less : Depreciation	5,41,941.00	53,54,314.00	41,47,261.00
12	ARMS & AMMUNITIONS	96,570.00		
	Less : Depreciation	14,486.00	82,084.00	65,907.00
13	OFFICE EQUIPMENTS	20,85,616.07		
	Less : Depreciation	3,03,385.07	17,82,231.00	15,09,290.00
14	ELECTRICAL FITTINGS	6,10,327.00		
	Less : Depreciation	88,561.00	5,21,766.00	4,10,924.00
15	VEHICLES	5,07,390.00		
	Less : Depreciation	76,109.00	4,31,281.00	5,07,390.00
16	COMPUTER	40,62,266.00		
	Less : Depreciation	18,09,606.00	22,52,660.00	37,47,540.00
17	OTHER ASSETS			
	A) General Advance	15,96,940.00		4,64,610.00
	B) Staff Advance	5,52,285.00		3,33,680.00
	C)TDS	1,04,38,718.00		84,53,553.00
	D) Prepaid Insurance	12,82,271.00		4,30,685.00
	E) Direct Return	15,675.00		3,049.00
	F) Others	—	1,38,85,889.00	3,000.00
18	NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		NIL	NIL
	TOTAL		210,91,45,565.25	189,64,65,986.73

Auditors Report
As per Separate Report of Even Date Attached
For H. K. DUA & Co.

(Chartered Accountant)

THE KANGRA COOPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110 058

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 01.04.2005 TO 31.03.2006

EXPENDITURE	Current YEAR 1.4.2005-31.03.2006	Previous YEAR 1.4.2004-
31.3.2005	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Interest on Deposits & Borrowings	7,90,14,047.17	8,06,75,323.83
	Salary, Allowances & PF 2,47,37,454.00	2,26,76,570.00
Director & Local Committee		
Member Fees & Allowances	11,78,841.00	5,93,925.00
Conveyance & Travelling	4,43,874.00	3,72,413.00
Rent, Taxes, Insurance & Lighting	53,85,014.90	5,307,009.00
Legal & Professional Charges	16,56,581.00	7,15,753.00
Postage Telegram & Tele. Charges	12,06,341.31	11,71,596.00
Auditors Fees	1,00,000.00	1,10,200.00
Depreciation & Repair to Property		
Depreciation	3,246,096.67	
Repair to Property	1,078,067.58	43,24,164.25
Stationery, Printing & Advertising	18,58,094.52	15,24,204.85
Prov. For Bad & Doubtful Debts	80,00,000.00	2,70,00,000.00
Prov. For Standard Assets	16,37,864.00	1,06,557.00
Provision on Investments	—	30,00,000.00
Other Expenditure	55,88,439.37	40,42,777.31
Excess of Income over Exp.	4,12,21,882.70	2,17,75,722.21
TOTAL	17,63,52,598.22	17,29,48,074.51
Transferred To Statutory Reserve	1,03,05,471.00	54,43,930.00
Cooperative Education Fund	10,000.00	10,000.00
Investment Fluctuation Reserve	—	1,000,000.00
Balance Transferred to Balance Sheet	3,09,06,411.70	1,53,21,792.21
	4,12,21,882.70	2,17,75,722.21

THE KANGRA COOPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110 058

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 01.04.2005 TO 31.03.2006

INCOME	Current YEAR 1.4.2005-31.03.2006	Previous YEAR 1.4.2004-
31.3.2005	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Interest & Discount	16,15,30,253.67	15,37,94,549.50
Commission, Brokerage and Exchange	86,88,293.12	90,78,247.61
Profit on Sale of Investment	-	71,80,750.00
Provision on Investment	30,00,000.00	-
Other Receipts	31,34,051.43	28,94,527.40
TOTAL	17,63,52,598.22	17,29,48,074.51
Excess of Income over Expenditure Brought Down	4,12,21,882.70	2,17,75,722.21
Investment Depreciation Reserve		
	4,12,21,882.70	2,17,75,722.21

Auditors Report
As per Separate Report of Even Date Attached
For H. K. DUA & Co.

(Chartered Accountant)

ADDITIONAL INFORMATION

1. Capital to Risk Asset Ratio : 19.64% as on 31.3.2006

2. Movement of CRAR

CRAR AS ON 31.3.2006 INCREASE(DECREASE)	CRAR AS ON 31.3.2005	
19.64%	18.11%	1.53%

3. Investments

A	Book Value of Investments	Rs.	56,97,11,000.00
B	Face Value of Investments	Rs.	57,58,90,000.00
C	Market Value of Investments	Rs.	54,06,34,786.00

4. Advances against real estate construction business, housing Rs. 16,47,98,312.80

5. Advances against shares & debentures. Rs. NIL

6. Advances to directors, their relatives, companies/firm
In which they are interested.

a) Fund based	Rs. 96,982.00
b) Non-fund based (Guarantees, L/C etc.	Rs. NIL

7. Cost of Deposits : Average cost of Deposits 4.75%

8. NPAs

a) Gross NPA	Rs. 1,159.00 Lacs
b) Net NPA	Rs. (-)7.27 Lacs

9. Movement in Non-performing Assets

(Rs. in Lacs)

PARTICULARS YEAR	CURRENT YEAR 31.3.2006	PREVIOUS 31.3.2005
Gross NPA at the beginning of the year	1,368.04	1,126.75
Addition/Deletion during the year	(-) 209.02	(+)241.29
Gross NPAs at the end of the year	1,159.02	1368.04
Less : Provisions and other credit balances	1,166.29	1049.00
Net NPA at the end of the year	(-) 7.27	319.04

10. Profitability

PARTICULARS	CURRENT YEAR 31.3.2006	PREVIOUSYEAR 31.3.2005
a) Interest income as a percentage of working funds	7.92%	8.36%
b) Non Interest income as a percentage of working funds	0.73%	1.04%
c) Operating profit as percentage of working funds	2.79%	2.82%
d) Return on Assets	2.02%	1.19%
e) Business (Deposits + Advances) per employee	192.11 lacs	167.05 lacs
f) Profit per employee	3.10 lacs	1.62 lacs

11. Provisions made towards NPAs, depreciation in investments

PARTICULARS YEAR	(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS
	31.3.2006	31.3.2005
Provision for NPAs	80.00	270.00
General Provision on Standard Assets	16.38	1.07
Depreciation in Investments	NIL	NIL
Amortisation of Premium in case of investments	6.39	5.84

12. Movement in provisions/Depreciation in investments

a) Movement in provision for NPAs (excluding provision on Standard Assets)

PARTICULARS YEAR	(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS
	31.3.2006	31.3.2005
Opening Balances	970.23	700.23
Add : Provisions made during the year	80.00	270.00
Less : Written off	NIL	NIL
Closing Balances as on 31st March	1050.23	970.24

b) Movement in Standard Assets Provision

PARTICULARS YEAR	(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)
	CURRENT YEAR	PREVIOUS
	31.3.2006	31.3.2005
Opening Balances	14.71	13.64
Add : Provisions made during the year	16.38	1.07
Closing Balances	31.09	14.71

13. Foreign Currency Assets & Liabilities :-

NIL

14. The Payment of Insurance premium to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

(DICGC) Rs. 15,81,023.00

As per our report of even date attached

For H.K. DUA & o.

Chartered Accountants

PROFIT AS PER BALANCE SHEET

Profit as per Balance Sheet 3,39,06,411.70

ALLOCATION

Dividend @ 15% p.a.	1,05,14,781.00
BDDR	70,00,000.00
Undistributed Profit	80,00,000.00
Building Fund	70,00,000.00
Welfare Fund	13,91,630.70
	3,39,06,411.70

Proposal with respect to scholarship being given to the brilliant children of members and staff

Existing

For 9th and 10th classes - Rs. 125 p.m.

For 11th and 12th classes - Rs. 150 p.m.

Proposed

9th class } Rs. 150/-

10th class }

11th class } Rs. 200/-

12th class }

Those children of member/staff who get 90%

and above in the Board exams. the following special award may be considered :

10th class - Rs. 3100/-

12th class - Rs. 5100/-

बैंक की शाखाएं

1. **पहाड़ गंज** : 1916 चूना मण्डी पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055
मुख्य शाखा दूरभाष : 23585931, 23581103 फ़ैक्स : 23588358
सर्विस ब्रांच 23582056
पब्लिक कार्य समय : 2 बजे से सायं 6.30 बजे (सभी सातों दिन)
2. **जगतपुरी** : 73-ए, ब्लाक-ए, जगतपुरी, दिल्ली-110051
दूरभाष : 22431265, 22504903 फ़ैक्स : 22505979
पब्लिक कार्य समय : सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे (सभी सातों दिन)
3. **जनकपुरी** : सी-29, कम्युनिटी सैन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058
दूरभाष : 25507006, 25507007 फ़ैक्स : 25507008
पब्लिक कार्य समय : सायं 2 बजे से सायं 6 बजे (सभी सातों दिन)
4. **रोहिणी** : सी 3/7, प्रशान्त विहार, रोहिणी, दिल्ली-110085
दूरभाष : 27861503 फोन/फ़ैक्स : 27860303
पब्लिक कार्य समय : सायं 2 बजे से सायं 6 बजे (सभी सातों दिन)
5. **गोविन्दपुरी** : 1/7 मेन रोड, गोविन्दपुरी, नई दिल्ली-110019
दूरभाष : 26238261, 26238262 फ़ैक्स : 26238263
पब्लिक कार्य समय : सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे (सभी सातों दिन)

ऋण पर ब्याज दरें

1. मकान के लिये	: 10 %	वार्षिक
2. शिक्षा के लिये	: 10 %	वार्षिक
3 वाहन के लिये	: 10 %	वार्षिक
4 टी. वी., वी सी. आर, फ्रिज, ए. सी., कम्प्यूटर तथा अन्य घरेलू उपकरणों के लिये	: 12 %	वार्षिक
5 कारोबार के लिये ऋण तथा ओ. डी. लिमिट	: 13 %	वार्षिक
6. 50,000 रू.तक जमानती ऋण	: 11 %	वार्षिक
7. 50,000 रू. से अधिक जमानती ऋण	: 12 %	वार्षिक

जमा राशियों पर ब्याज दरें

46 दिन से 180 दिन तक	: 4.5 %
181 दिन से एक वर्ष तक	: 5.5 %
1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक	: 7 %
3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक	: 7.5 %
5 वर्ष से अधिक	: 8 %

नोट 1 : Regular किश्त देने पर ओ. डी. लिमिट को छोड़कर सभी ऋणों के ब्याज पर 1% की छूट

नोट 2 : वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिये कम से कम राशि 10000/- रू. तथा कम से कम अवधि एक वर्ष पर 1% अधिक ब्याज

नोट 3 : कम से कम 15 लाख रू. DEPOSIT तथा कम से कम एक वर्ष की अवधि तक 0.5%

अधिक ब्याज